

नोट: सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं।

भाग - क (पाठ्य पुस्तक में से)

प्रश्न - 1 निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश के सरलार्थ लिखें। (5)

मर्यादित रहना उसका व्यवहार है
सहनशीलता उसका उपहार है।

जब निःस्वार्थ सेवा भाव जगाती माँ
तब धरती बन जाती माँ।

केवल देने में उसका विस्तार है
चरणों में उसके स्वर्गद्वार है।

अथवा

दौलत पाय न कीजिए, सपने में अभिमान।
चंचल जल दिन चारि को, ठाउँ न रहत निदान।।
ठाउँ न रहत निदान, जियत जग में यश लीजै।
मीठे वचन सुनाय, विनय सब की है कीजै।।
कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत।
पाहनु निशि दिन चारि, राहत सब ही के दौलत।।

प्रश्न -2. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर लगभग चार-पाँच पंक्तियों में लिखें। (3*4=12)

1. 'सरफरोशी की तमन्ना' पाठ के आधार पर बताएँ कि विधान सभा में बम विस्फोट का क्या परिणाम निकला?
2. कल्पना चावला के जीवन से आप क्या प्रेरणा लेते हैं?
3. अम्लीय वर्षा किस कारण होती है?
4. वाघा बार्डर पर झण्डा उतारने की रस्म कैसे सम्पन्न होती है?
5. 'ईदगाह' पाठ के आधार पर हमिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएँ लिखें।

भाग-ख (व्यावहारिक व्याकरण)

प्रश्न -3. किन्हीं चार प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर दें- (4*1=4)

1. 'आवश्यक' शब्द की **भाववाचक संज्ञा** लिखें।
2. 'मनुष्य' शब्द की **भाववाचक संज्ञा** लिखें।
3. निम्नलिखित वाक्य में उचित **योजक** शब्द को कोष्ठक () में से चुनकर रिक्त स्थान भरें ।
ऐसा लगता हैसब कुछ आपके पास हो रहा है। (ताकि, मानो)
4. निम्नलिखित वाक्य में उचित **योजक** शब्द को कोष्ठक () में से चुनकर रिक्त स्थान भरें ।
हमिद बड़ा चालाक है अपने पैसे बचा कर रखे थे। (इसलिए, परन्तु)
5. नदी के किनारे एक गाँव था। (इस वाक्य में **संबंधबोधक** छांटकर लिखें)
6. हम लिखते हैं। (इस वाक्य में **उत्तम पुरुष** छांटकर लिखें)

भाग- ग (रचनात्मक लेखन)

प्रश्न - 4. छुट्टी वाले दिन स्कूल के क्रीडाक्षेत्र (प्ले ग्राउंड) में क्रिकेट मैच खेलने की अनुमति के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखें। (8)

अथवा

मित्र के जन्मदिन पर उसे बधाई देते हुए पत्र लिखें।

प्रश्न-5. निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150-200 शब्दों में निबंध लिखें- (8)

स्वच्छता अभियान, प्रातःकाल की सैर, स्वतंत्रता दिवस

भाग-घ

प्रश्न- 6. निम्नलिखित मुहावरों/लोकोक्तियों में से किन्हीं पाँच को वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें- (5)
बाल भी बाँका न होना, दिल बैठ जाना, छक्के छुड़ाना, एक पंथ दो काज, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताय, दिनों -
दिन सूखना, जहाँ चाह वहाँ राह

भाग-ड.

प्रश्न - 7(i). किन्हीं दो पंजाबी शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें- (2)
कलेस, पंन, राखस

प्रश्न - 7 (ii). किन्हीं दो पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करें - (2*2=4)

क. तेरीआं उँगलीआं तवे नाल सत्र ज़ांदीआं सन।

ख. अँज वी उर सारिआं दे दिलां ते राज करदी है।

ग. इह उंसदा मनपसंद विसा सी।

प्रश्न -8 . सुंदर लिखाई (2)